

OBL:HO:SEC:00:

BSE Limited
Corporate Relation Department
1st Floor, New Trading Ring
Rotunga BuildingPhiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street,
Mumbai - 400 001

Stock Code - 530365

New Delhi : 03.08.2021

National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai-400 051

Stock Code: ORIENTBELL

Sub: Newspaper Publication - Notice issued to Shareholders with regard to

Transfer of Equity Shares to Investor Education & Protection Fund

(Regulation 47).

Dear Sir/Madam,

In pursuance of Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements), Regulations 2015, please find enclosed copy of Notice issued to Shareholders by way of publication in the newspapers viz Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) on Tuesday, 03rd August, 2021 with regard to the Transfer of Equity Shares to Investor Education & Protection Fund.

This is for your kind information and record.

Yours faithfully, For Orient Bell Ltd.

Yogesh Mendiratta

Company Secretary & Head-Legal

Encl: As Above.

GLOBUS SPIRITS LIMITED CIN: L74899DL1993PLC052177

Regd. Office:- F-0, Ground Floor, The Mira Corporate Suites, Plot No.1&2, E-mail:corporateoffice@globusgroup.in, Web:www.globusspirits.com

Ishwar Nagar, Mathura Road, New Delhi-110065, Ph:011-66424600, Fax:011-66424629, In terms of the Clause 29 (1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements

Regulations, 2015, notice is hereby given that the next meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Sunday, the 08th August, 2021, inter-alia, (i) to consider and take on record the Un-audited financial results of the Company for the 1st Quarter ended on 30th June, 2021; (ii) to fix the date & venue for conducting the Annual General Meeting for the financial year 2020-21 & to fix the Book Closure date for the purpose of AGM.

The said notice is also available on the company's website www.globusspirits.com and also available

Dated: 1st August 2021

Place: New Delhi

For Globus Spirits Limited Santosh Kumar Pattanayak

(Company Secretary)

CIN: L34300DL1991PLC044365, Website: www.uniofficeautomation.com

Regulations, 2015 the exchange is hereby informed that the meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Thursday, 12" August, 2021 at 3.30 p.m. to consider the un-audited results of the Company for the quarter ended on June 30, 2021.

This intimation is also available on the website of the Company at www.uniofficeautomation.com and may also be accessed on the Stock Exchange website at http://www.bseindia.com. Further in terms of 'Minimum Standards for Code of Conduct to Regulate, Monitor and Report Trading' for dealing in securities of the company, the Company has decided that the

08-2021 and end 48 hours after the results are made public on 14-08-2021 Date: July 30, 2021

Naina Luthra

H Company Secretary HINDUJA HOUSING FINANCE

HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED

Place: New Delhi

Date: 02.08.2021

Whereas the undersigned being the Authorized Officer of the HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED under Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (No. 3 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice was issued on the dates mentioned against each account and stated hereinafter calling upon the borrower (hereinafter the borrower and guarantors are collectively referred to as the "the Borrowers") to

The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below each account. The of the HINDUJA HOL

The b	orrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the. A			
Sr.		Demand Notice Date		
No.	Guarantors	Date of Possession		
1	Mr. Ramavadhesh Ray & Ms.	01-09-2020		

CONTINENTAL PETROLEUMS LIMITED

Regd Office: A-2, Opp. Udyog Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur-302005, (Rajasthan) Phone: 0141-2222232

CIN: L23201RJ1986PLC003704 • E-mail: conpetco@gmail.com, cs.conpetco@gmail.com • Website: www.contol.in

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing

Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations), Notice is hereby given that

the meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on, Friday, 13th August, 2021 at

1.30 P.M at the registered office of the company inter alia, to consider, approve and take on record the

Unaudited Financial Results of the company for the quarter ended June 30th , 2021 along with the limited review

report of the auditor. Further, the trading window for dealing in securities of company is already closed for all

designated persons of the company and their immediate relatives from 01st July, 2021 and the same shall

remain closed till 48 hours after the announcement of the financial results for the guarter ended June 30th,

POSSESSION NOTICE [Under Rule 8(1) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002]

(Enforcement) Rules, 2002 issued demand notice on the date mentioned against account and stated herein calling upon them to repay the amount within 60 days The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower/ guarantor and the public in general that the undersigned has taken

possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, The borrower/gurantor in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the PUNJAB NATIONAL BANK, for the amounts and interest thereon. The borrowers attentions is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the act, in respect of time available to redeem the secured asset, Details o

of Security Interest Act, 2002 (Act No. 54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule-3 of the Security Interest

properties where possession had been taken is as follows: Name of the Borrower/ Guarantor/Mortgagor Description of the Property (Movable/Immovable) Outstanding Date of Date of Amount u/s Demand Possession Sh. Mohammad Shuaib Alam s/o Sh. Property Situated at Mohalla - Mughalpura, Hissa Avval, Tehsil & District -

Moradabad (UP), Sh. Mohd Zubair Alam s/o Sh. Mohd, Saleem (Guarantor), At: Guyia Bagh, Near Wide, South: House of Altaf Hussain Mansuri, East: House of Ishtivak Hussain, West: House of Sved Akil Hussain, Ansar Inter College, Moradabad (UP) 2. M/s Al Qadir Traders 1. Property Situated at Khasra No. 338-A, Mauza- Jayantipur, Teela Colony, Tehsil & District- Rs. 54,10,783.21 02.12.2020 28.07.2021 (Borrower's Firm) At: Gali Moradabad, (UP), Area 70.83 sq. mtrs., (In the name smt. Noor Jahan w/o Sh. Haji Munnan urf

No. 07. Near Slaughter House, Munnan Raza), Registered in Bahi No. 1, Zild No. 10479 at Pages 145-168, Serial No. 2131, Dated 29.01.2014 in the Sub Registrar Office -Asalatpura, Moradabad (UP), Sh. Moradabad, Bounded By: North: Rasta Mushtarka 10 Feet Wide, South: Araji Tanveer Hussain, East: Rasta Mushtarka 8 Feet Wide, West Munnan Raza urf Haji Munnan s/o Araji Azam Khan Sh. Abdul Majeed (Prop./ 2. Property Situated at Mauza Jayantipur West, Ward-26, Tehsil & District- Moradabad, (UP), Area 139.08 sq. mtrs. (in the Name of Sh. Ha Mortgagor), At : 328, Asalatpura, Munnan urf Munnan Raza & Smt. Noor Jahan), Registered in Bahi No: 1, Zild No. 9359, Pages 341-360 at Serial No. 17361, Dated 12.12.2012 a

Madhya Anshik, Moradabad, (UP), Sub- Registered Office - I, Moradabad. Bounded By :- North : Araji Mohd. Waseem, South : Araji Abdul Khalik, East : Araji Ameer Ahmad un Sh. Shahnawaz s/o Sh. Haji Bhure Bhai, West: Rasta 5 Feet Wide. Munnan (Guarantor), Al: 328, 3. Property Situated at Gata No. 252 Min. Gram Jayantipur, Tehsil & District - Moradabad, (UP), Area 116.24 sq. mtrs. (In the name of Sh

Asalatpura, Madhya Anshik, Munnan Raza s/o Sh. Abdul Majeed), Registered in Bahi No. 1, Zild No. 3565, Pages 173-200 at Serial No. 4271, Dated 11.06.2002 at Sub-Moradabad, (UP), mt. Noor Jahan Registrar Office-I, Moradabad. Bounded By:- North: Jujme Plot of Nazir Hussain and Jujme Araji Mohd. Yaseen, South: Plot of Abrar Hussain W/o Sh. Haji Munnan (Guarantor/ East : Rasta Kham 15 Feet Wide, West : Plot Jaheer Alam. Mortgagor), At: Gali No.: 07, Bada 4. Property Situated at Mohalla Slaughter House, Asalatpura, Tehsil & District - Moradabad, (UP), Area 34.04 sq. mtrs., (In the name of Ha

Hatta, Asalatpura, Moradabad, Munnan urf Munnan Raza), Registered in Bahi No. 1, Zild No. 6282, Pages 345-362 at Serial No. 6969, Dated 31.05.2008 at Sub Registrar Office - I, Moradabad, Bounded By: North: House of Mohd. Umar, South: Gali about 12 Feet Wide, East: House of Jhallu, West: House of Ibney Ali Place: Moradabad Dated: 02.08.2021

Place : Jaipur

Date: 02.08.2021

Authorized Officer, Punjab National Bank JINDAL FITTINGS LIMITED This is to inform the General Public that following Share: CIN: U27100DL2011PLC219075 Certificate of GHCL Ltd., having its Registered Office at Regd. Office: 28, Najafgarh Road, New Delhi-110015

GHCL House, Opp. Punjabi Hall, Navrangpura, ollowing Share Holder has been lost by him. Folio Certificate Name of Share Holder In the matter of sub-section (4) of Section 13 of Companies Act, 2013 and clause Sanjay Chiripal | 0135479 | 280693

Distinctive No. No. of Shares 4381516-381615

2021. This information is also available on the website of the company at www.contol.in and website of BSE at For CONTINENTAL PETROLEUMS LIMITED Madan Lal Khandelwal (Managing Director)

the said share certificate should lodge such claim with the Company or its Registrar and Transfer Agents 'Link Intime India Private Limited, 247 Park, C-101, 1st floor L.B.S. Marg. Vikroli (W), Mumbai-400083" withii 15 days of publication of this notice after which no claim will be entertained and the Company shall proceed to issue Duplicate Share Certificate Date: 02.08.2021 Place: Delhi SANJAY CHIRIPAL

Regd Off- 118/610A, Kaushalpuri, Kanpur-208012

CIN: L22022UP1982PLC005759 Ph; No. 0512-2526347 : E-Mail- prabhatsecurities@gmail.com

SI. No.	Particulars	Quarter 30th June 2021 (Un-Audited)	Preceeding Quarter ended 31st March, 2021	Corresponding Quarter ended 30th June 2020	Year ended 31st March, 2021 (Audited)
1.	Total Income from Operations	8.64	34.86	5.66	54.34
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	1.17	14.42	0.88	18.96
3.	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,17	14.42	0.88	18.96
4.	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Excep- tional and/or Extraordinary items)	0.87	-8.95	0.65	16.56
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	0.87	-8.95	0.65	16.56
6.	Equity Share Capital	290.00	290.00	290.00	290.00
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year.				56.20
8.	Earnings Per Share:				-50000
	1. Basic:	0.03	0.00	0.02	0.06
	2. Diluted:	0.03	0.00	0.02	0.06

Note:-1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results are available on Company's Website (http://www.prabhatsecuritiesItd.com), Calcutta Stock Exchange websites (http://www.cse-india.com.) MSEI(http://www.msei.in) 2. The Financial Result for the three months ended 30.06.2021 has been reviewed by the

Audit Committee and approved by the Board of Directors in the meeting held on

Previous Quarters/periods figures have been regrouped and/or reclassified whereever necessary to confirm to the current periods classification.

Date- 31/07/2021

The Indian Express.

indianexpress.com I arrive at a conclusion not an assumption. Inform your opinion with detailed analysis.

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed shifting of Registered office of the Company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing Investor Complaint Form or cause to be delivered or send by registered post of his / her objections supported by an affidavit stating the nature of his / her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region Ministry of Corporate Affairs, B-2 Wing, 2nd Floor, Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan CGO Complex, New Delhi - 110003 within fourteen days from the date of publication of this Notice with a copy to the Applicant Company at its registered office at the address mentioned above.

Phone: +91 (11) 45021983-984; Fax No.: +91 (11) 45021982

Website: www.jindalfittings.com

Before the Regional Director (Northern Region), New Delhi

(a) of sub-rule (5) of Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

Najafgarh Road, Shivaji Marg, New Delhi -110015

PUBLIC NOTICE

For JINDAL FITTINGS LIMITED

(VIVEK CHOUDHARY) Company Secretary A.C.S 29335

ORIENT BELL LIMITED Regd. Off.: 8, Industrial Area, Sikandrabad - 203 205 (U.P.)

Corp. Off.: Iris House, 16, Business Centre, Nangal Raya, New Delhi - 110 046 CIN: L14101UP1977PLC021546, Tel.: +91-11-47119100 Email: investor@orientbell.com , Website : www.orientbell.com NOTICE TO SHAREHOLDERS

Notice is given pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 read along with

the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 as notified by the Ministry of Corporate Affairs, New Delhi and as amended from time to time ("the Rules")

been paid or claimed by the shareholders for seven consecutive years, to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) set up by the Central Government. Accordingly, individual communications have been sent to those shareholders in respect

of whom the dividend is unpaid/unclaimed since F.Y 2013-14 and thus whose shares are liable to be transferred to IEPF under the said Rules at their latest available address. The Company has uploaded the details of such shareholders and shares due for transfer to IEPF on its website www.orientbell.com.

In view of the above, all such shareholders are requested to make an application to the Company / its Registrar by 17.08.2021 for claiming the unpaid dividend for the year 2013-14 onwards so that their shares are not transferred to the IEPF. It may please be noted that if no claim/application is received by the Company or the Registrar, by 17.08.2021 the Company will be compelled to transfer the underlying shares to the IEPF, without any further notice, by following the due process as enumerated in the said

Kindly note that all future benefits, dividends arising on such shares would also be All shareholders are requested to note the above provisions and claim all unpaid

all benefits accruing on such shares, if any, can be claimed back from the IEPF Authority after following the procedure prescribed under the said Rules.

and Share Transfer Agents, M/s MCS Share Transfer Agent Ltd. Unit: Orient Bell Ltd., F-65, 1" Floor, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi - 110 020, Tel, No. +91-11-41406149,

New Delhi

Company Secretary & Head Legal

STATE BANK OF INDIA Stressed Assets Recovery Branch-I 1st Floor, 23, Najafgarh Road, New Delhi-110015, Tel: 011-25419177, 25412977, E-mail : sbi.05169@sbi.co.in POSSESSION NOTICE (Under Rule 8(1) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002)

Whereas, the Authorized Officer of the State Bank of India, under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a Demand Notice on 09.11.2020 calling upon the Borrower Mrs. Kahkashan Gulzar W/o Ahmad Iftikhar, Sh. Ahmad Iftikhar S/o Sh. Iftikar Abdul Kaleem. Address: (1) 213, Budhana Gate, Near Madarsa, Nooral Islam Meerut City (U.P) 250002 (2) 609 Amethy's-1 BDI, Sunshine City Bhiwadi-301019 (3) House No. 109, Dhul Siras, Jatt Mohalla, Dwarka, Sec - 25 New Delhi 110075 (4) Flat No. M – 422 4th Floor, Tower B-3, Aashiana Surbhi Phase III, Rampura, Tehsil Tizara, Distt Alwar Pin 321605 (5) 241, Vardhman, Diamond Plaza, Plot No. 3, D B Gupta Road, IInd Floor, Pahargani New Delhi 110055 (6) Block I-124 1st Floor, Abu Fazal Enclave, Jamia Nagar, Okhla Delhi 110025 (hereinafter the Borrower and Guarantor are collectively referred to as "the Borrower") to repay the amount mentioned in the said Demand Notices being Rs. 35,53,867/- (Rs Thirty Five Lakh Fifty Three Thousand Eight Hundred Sixty seven Only) as on 08.11.2020 along with future interest on the said amount the contractual rates with respectively together with all incidental expenses, cost charges, etc. within 60 days from the date of receipt of the said notices.

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given by the authorized AO to Borrower/Guarantors in particular and public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of said Rules on this 28th day of July 2021.

The Borrower / Guarantor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of State Bank of India for an amount of Rs. 35,53,867/- (Rs Thirty Five Lakh Fifty

The borrower's /quarantor's/mortgagor's attention is invited to provision of sub-section (8) of section 13 of the Act in respect of time available to redeem the secured assets.

All that Part & Parcel including Immovable Property of Flat No. M- 422, 4th Floor Phase-III, Tower B3 Aashina Surbhi, Bhiwadi, Village Rampura, Tijara, Alwar Rajasthan - 321605 Date: 28-07-2021, Place: Bhiwadi, Rajasthan Authorised Officer, State Bank of India

Form No. INC-26 {Pursuant to Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014} Before the Central Government, Regional Director, Northern Region, New Delhi the matter of sub-section (4) of Section 13 of Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014 AND

In the matter of **GUNJAN NIKUNJ EDUCATIONAL INSTITUTE PRIVATE LIMITED** (CIN: U74899DL1992PTC048193) having its Registered Office at HOUSE No. B-31, FIRST FLOOR, BLOCK-B SECTOR-23-A, DWARKA, **NEW DELHI-110077**

.Applicant Company / Petitioner NOTICE is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to the Central Government under Section 13(4) of the Companies Act. 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on 20th July, 2021 to enable the company to change its Registered Office from "National Capital Territory of Delhi" to the "State of Haryana". Any person whose interest is likely to be

affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver either on the MCA-21 (www.mca.gov.in) by filing investor **complaint form** or cause to be delivered of send by registered post of his /her objections supported by an affidavit stating the nature of his / her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region Ministry of Corporate Affairs, B-2 Wing, 2nd Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex New Delhi-110003 within fourteen days (14 from the date of publication of this notice with a copy to the applicant Company at its Registered Office at the address mentioned below:-HOUSE No. B-31, FIRST FLOOR, **BLOCK-B SECTOR-23-A, DWARKA,**

NEW DELHI-110077 For & on behalf of Applican GUNJAN NIKUNJ EDUCATIONAL INSTITUTE

PRIVATE LIMITED

SONICA CHANDRA DIN: 03012017 Date: 02.08.2021 Place : New Delhi

.....Petitioner

NOTICE is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to the Central Government under Section 13(4) of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held or 27th June, 2021 to enable the company to change its Registered Office from "National

Capital Territory of Delhi" to the "State of Uttar Pradesh"

affected by the proposed change of the registered office of the company may delive on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor **complaint form** or cause to be delivered or send by registered post of his /her objections supported by an affidavit stating the nature of his / her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region Ministry of Corporate Affairs, B-2 Wing, 2nd Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex New Delhi-110003 within fourteen days (14 from the date of publication of this notice with a copy to the applicant Company at its

Registered Office at the address mentioned S-233, School Block, Shakarpur,

For & on behalf of Applican

SIDDHARTH POLYFOAM PRIVATE LIMITED SIDDHARTH AGGARWAI DIN: 08988510

Form No. INC-26 IPursuant to rule 30 the Companies (Incorporation) Rules, 2014]

In the matter of sub-section (4) of Section 13 of Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

New Delhi - 110076.

Notice is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to the Central Government under section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra ordinary general meeting held on Friday, the 2nd July, 2021 to enable the company to change its Registered Office from "National Capital Territory of Delhi to the State of West Bengal".

of the company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director at the address B-2 Wing, 2nd Floor, Pt Deendayal Antyodaya Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003 within fourteen (14) days of the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office at

financialexp.epar

on BSE & NSE website.

UNIVERSAL OFFICE AUTOMATION LIMITED Regd. Office: 806, Siddharth, 96, Nehru Place, New Delhi - 110019

Pursuant to Regulation 29 (1) (a) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements

trade close period (i.e. closure of trading window) would commence from 6.00 p.m. on 07-

For Universal Office Automation Ltd.

NOTICE

I Jangli Thakur have applied to JAMNA AUTO INDUSTRIES LIMITED Jai Springs Road Yamuna Nagar Haryana - 135001 to issue duplicate share certificates in lieu of loss/ misplace of following original share certificates:

SI. No.	Folio No.	Certificate No.	Distinctive Number	Number of Shares	Face Value per shares
1	1002557	69706	41196280 to 41196454	175	10
2	1002557	9436	79479163 to 79479362	200	5
3	1001670	66152	2266351 to 2266450	100	10

Any person having claim on said equity shares should approach Company in 15 days failing which duplicate shares certificates shall be issued and no claim will be entertained thereafter

PBX 2612849, 2615722, 2201856 Gram: 'SUGARFED' Fax: (0522) 2627994

संख्या P-8220 यू.पी.एफ./

etc. can be downloaded from e- tender portal http:///etender.up.nic.in & federation website www.upsugarfed.org

process without assigning any reason to & decision of Federation will be final & binding. MANAGING DIRECTOR

CIN: L01122HR1994PLC033029; Tele: +91-9811341542

FOR KIND ATTENTION OF THE SHAREHOLDERS In view of the continuing Covid-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") vide it General Circular nos. 14/2020 dated April 8, 2020; 17/2020 dated April 13, 2020; 20/2020 dated May 05, 2020; 02/2021 dated January 13, 2021 (hereinafter collectively referred to as "MCA Circulars*) and SEBIvide Circular dated 12.05.2020 have granted exemption from dispatching physical copies Notices of Annual General Meeting and Annual Report to shareholders and also

We hereby request all the shareholders to update their Email IDs for supply of Annual Reports Notice of AGM and other communications from the Company. Further, up-dated Bank details will enable electronic credit of dividends paid by the Company from time to time without any delay and

Kindly note that no physical copy of Annual Report 2020-21 will be sent to the members either

Further, they are also requested to register/ update their (i) Email IDs, (ii) Bank mandate and (iii Mobile No. with the Registrar and Share Transfer Agent - Beetal Financial & Computer Services Pvt. Ltd/ the Company by furnishing following information:

S.No.	Particulars	Details
i,	Name	
ii.	Folio No.	
iii.	Email ID	
iv.	Original /scanned copy of cancelled Cheque or Passbook signed by Bank Manager with	

Above details along with requisite documents can be sent to Punit Mittal, Beetal Financial & Computer Services Pvt. Ltd. - RTA at Beetal House, 3rd Floor, 99, Madangir, Behind LSC, New

email ID: beetalrta@gmail.com

IFSC & MICR No.

Yogesh Agrawal (Managing Director)

RAGHAV PRODUCTIVITY

Reg. Office: Office No.36, A-10 Central Spine, Alankar Plaza, Vidhyadhar Nagar, Jaipur-302023 ENHANCERS LTD. CIN: L27109RJ2009PLC030511

2021 issued by Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular"), without the physical presence of the members at a common venue. Electronic copies of Notice of EGM have been sent to all the members on Monday, 02nd August, 2021 whose e-mail addresses are registered with the Company/ Depository Participant(s). The requirement of sending physical copy of the Notice of EGM to the members has been dispensed with vide MCA Circular(s) and SEBI Circular. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) and Regulation 44 of SEB Listing Regulations (as amended) and Secretarial Standards on General Meetings issued

means, as the authorized e-Voting's agency. The voting rights of the members shall be in

proportion to the equity shares held by them in the paid-up equity share capital of the company as on 18th August, 2021 i.e. cut-off date. In this regards, the members are hereby further informed that: a. Remote e-voting period shall start at Sunday, 22nd August, 2021 at 10:00 A.M. and will

by the Institute of Company Secretaries of India, the Company is providing facility of

b. The members who have cast their votes by remote e-voting on the resolutions prior to the EGM, may attend/ participate in EGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their votes on such resolution again.

e. Any person who acquires shares of the Company and become member of the Company after the dispatch of Notice of EGM and holding shares as on the cut-off date i.e. 18th used for casting vote.

Mehboob Lakhani (022-23058543) or Mr. Rakesh Dalvi (022-23058542). The Notice and other relevant details are available on the company's website a www.rammingmass.com, as well as on the BSE Ltd. at www.bseindia.com and on CDSL

UTTAR PRADESH Form No. INC-26 Globus Spirits

Rules, 2014 n the matter of CIVIL DEVELOPMENT AND FINANCE PRIVATE LIMITED having its registered

office at A-88/22, F/F Gali No.-1 Shakarour, Near-Sanjay Park, East Delhi-110092, Petitioner Notice is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to the Central Government under section 13 of the Companies Act. 2013 seeking confirmation of alteration of its Memorandum of Association in terms of the special resolution passed at the Extra ordinary general meeting held on 28/07/2021 to enable it to change its Registered Office from "National Capital

Territory of Delhi to State of Uttar Pradesh". Any person whose interest is likely to be affected by the proposed changescan file his/her objection, either on the Portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or by registered post supported by an affidavit stating the nature of interest and grounds of opposition to the Regional Director of Delhi within 14 days of the date of publication of this notice with a copy to

CIVIL DEVELOPMENT AND FINANCE SANJAY SHUKLA Date: 02.08.2021

For and on behalf of the **PRIVATE LIMITED**

(Director)

UTTAR PRADESH Form No. INC-26

in the matter of SUMAYA PRINTING AND PACKAGING PRIVATE LIMITED having its registered office at A-88/22, F/F Gali No.-1

the company proposes to make application to the Central Government under section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of its Memorandum of Association n terms of the special resolution passed at the Extra ordinary general meeting held on 28/07/2021 to enable it to change its Registered Office from "National Capital Territory of Delhi to State of Uttar Pradesh" Any person whose interest is likely to be affected by the proposed changescan file his/her objection, either on the Portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or by registered post supported by an affidavit stating the nature of interest and grounds of opposition to the

For and on behalf of the SUMAYA PRINTING AND PACKAGING

PRIVATE LIMITED

(Motia Khan), M.M. Road New Delhi Central Delhi 110055 Email: ekam.leasing1@gmail.com Website: www.ekamleasing.com

GENOMIC VALLEY BIOTECH LIMITED Regd. Off: 4 K.M. Stone, Berri Chharra Road Village- Kherka Musalman, P.O. Tandaheri, Tehsil-Bahadurgarh, District-Jhajjar, Haryana-124507 CIN: L01122HR1994PLC033029; Tele: +91-9811341542 Email: genomicvalley@gmail.com;

Notice is hereby given pursuant to the provisions of Regulation 29 and 47 (1)(a) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of Board of Directors of GENOMIC VALLEY BIOTECH LIMITED ("Company"), will be held on Tuesday, 10th August, 2021 at 11:45 A.M., inter alia, to consider and approve the Un-Audited Financial Results of the Company for the quarter and three

www.bseindia.com.

Yogesh Agrawal Date: 02.08.2021 Managing Director

future interest on the said amount the contractual rates with respectively together with all incidental expenses, cost charges, etc.

Before the Regional Director, Ministry of Corporate Affairs Northern Region In the matter of the Companies Act, 2013, section 14 of Companies Act, 2013 & rule 41 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014 In the matter of M/s, LUHADIA IMPEX LIMITED (CIN: U52110DL1989PLC038685)

having its registered office at C-2/54, S.D.A

Haus Khas, New Delhi-110016

Notice is hereby given to the general public that

the company intending to make an application

to the Central Government under section 14 of the Companies Act. 2013 read with aforesaid

its registered office at the address mentioned below: C-2/54, S.D.A. Haus Khas, New Delhi-110016. For and on behalf of the Applicant M/s. LUHADIA IMPEX LIMITED Nirmal Jain (Director) Date: 02.08.2021

DIN: 00229083

Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex,

New Delhi-110003. Northern Region, within

fourteen days from the date of publication of this

notice with a copy to the applicant company at

Form No. INC-26 {Pursuant to Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014} Before the Central Government, Regional Director, Northern Region, New Delhi n the matter of sub-section (4) of Section 13 o

(Incorporation) Rules, 2014 AND In the matter of SIDDHARTH POLYFOAM PRIVATE **LIMITED** (CIN: U17290DL2007PTC168956) having its Registered Office at

Companies Act, 2013 and clause (a) of

sub-rule (5) of Rule 30 of the Companies

Any person whose interest is likely to be

Date: 02.08.2021: Place: Delhi

Before the Central Government, Northern

In the matter of Stellar Accounting Services Private Limited (CIN: U74120DL2009PTC196262) having its registered office at F 247, Sarita Vihar,

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office

For and on behalf of

Aashna Lakhotia Director DIN: 09183131

E-mail: upsugarfed@yahoo.co.in Website: www.upsugarfed.org दिनांक - 02.08.2021 SHORT TERM TENDER NOTICE

The Federation reserves the right to cancel any or all bids/annul e-bidding

Email: genomicvalley@gmail.com: Visit: http://www.genomicvalley.com PUBLIC NOTICE

allowed conducting Annual General Meetings (AGM) through electronic mode during the year

Shareholdings holding shares in dematerialized form are requested to approach their respective Depository Participants for updating the Email address, Bank Mandates, and Mobile No. Shareholders holding shares in physical form are requested to convert their holdings in dema

Delhi-110062 at email ID: punitmittal8@gmail.com or Shri Bhawendra Jha, Senior Manager a

Place: Haryana Date: 02.08.2021

NOTICE OF EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING The Extra-Ordinary General Meeting ("EGM") of the Company will be held on Wednesday 25th August 2021 at 3:00 P.M. through Video Conference(VC)/ other Audio Visual Means (OVAM) to transact business as detailed in the Notice convening the EGM in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and read with General Circular dated 8th April, 2020, 13th April, 2020, 5th May, 2020 and 13th January, 2021 ("MCA

Circulars') and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations

2015 ("SEBI Listing Regulations") and circular dated 12th May, 2020 and 15th February


electronic voting system to its members in respect of the business to be transacted at the EGM. For this purpose, the Company has entered into an agreement with Centra Depository Services (India) Limited (CDSL) for facilitating voting through electronic

allowed after Tuesday, 24th August, 2021 at 5:00 P.M. and the same will be disabled by

August, 2021 may obtain user id and password by following the procedures as mentioned in the Notice of EGM or by sending a request mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com or cs@rammingmass.com However if a person

website at www.evotingindia.com. For Raghav Productivity Enhancers Limited

Neha Rathi (Company Secretary & Compliance Officer) M. No.: A38807



NOTICE FOR SHIFTING OF OFFICE TO Before the Central Government Northern Region in the matter of sub-section (4) of Section 13 of Companies Act, 2013 and clause [a] of sub-rule (5) of rule 30 of the Companies (Incorporation)

Before the Central Government Northern Region n the matter of sub-section (4) of Section 13 of Companies Act, 2013 and clause [a] of sub-rule (5) of rule 30 of the Companies (Incorporation)

Shakarpur, Near Sanjay Park, East Delhi-110092, Notice is hereby given to the General Public that

Regional Director of Delhi within 14 days of the date of publication of this notice with a copy to the Company at its current registered office.

Date: 02.08.2021 SANJAY SHUKLA Place: Delhi

CIN: L74899DL1993PLC055697 Regd. Office: No. 11, Rani Jhansi Road,

Visit: http://www.genomicvalley.com

Information in this regard is also available on the website of the Company i.e. www.genomicvalley.com and on the website of stock exchange i.e

For Genomic Valley Biotech Limited Place: New Delhi

First Floor, Mahalaxmi Metro Tower, Above Axis Bank, Vaishali, Ghaziabad, Uttar Pradesh-201010 SYMBOLIC POSSESSION NOTICE

repay the amount within 60 days from the date of receipt of said notice.

ir.	Name of Borrowers/	Demand Notice Date	Outstanding	Details of Immovable Property
ir.	Name of Borrowers/	owers/ Demand Notice Date	Amount	Details of Immovable Property
OUSIN	rower/guarantor in particular and the publ	lic in general is hereby cautioned not to future interest at the contractual rate on t	deal with the property and any deali he aforesaid amount together with inc	ngs with the property will be subject to the charge of the H idental expenses, costs, charges, etc. thereon.
				ent Rules, 2002 on this the dates mentioned against each ac

Ram Nagar, in the Revenue Estate of Village Pasaunda, Pargana Geeta, both at : E-59/A, Kalender as on 30.08.2020 26-07-2021 Loni, Tehsil & Distt. Ghaziabad, area measuring 20.90 sq mtr. Colony Dilshad Garden Delhi, New plus interest thereon Bounded as: East - Other's Plot, West - Plot No 48, North - Road 12 Ft. SYMBOLIC



Notice Sharfuzzamma (Borrower/ Mortgagor) At: Moradabad (UP), Area 72.123 sq. mtrs., (In the name of Sh. Mohd. Shuaib Qazi Tola, Near Ansar Inter College, Rs. 14,09,937.00 02.12.2020 28.07.202 Alam s/o Sh. Sharafuzzamma), Bahi No.: 1, Zild No: 10482, Pages: 209-246, Serial No.: 2194, Dated 30.01.2014 registered at sub registrar I, Moradabad. Bounded By: North: Rasta 6 Fee

Ahmedabad - 38000, Gujarat, registered in the name of

The Public are hereby cautioned against purchasing o dealing in any way with the above referred share certificate. Any person who has any claim in respect o

For PRABHAT SECURITIES LIMITED SD/-RAMAKANT KUSHWAHA (MANAGING DIRECTOR) Place- Kanpur

The Indian EXPRESS

In the matter of Jindal Fittings Limited having its Registered Office at 28, NOTICE is hereby given to the general public that the Company proposes to make ar application to the Central Government through the Regional Director. Northern Region, Ministry of Corporate Affairs, New Delhi under Section 13 of the Companies Act, 2013 seeking approval for alteration of Clause II of the Memorandum of Association of the Company in terms of the Special Resolution passed at the Extraordinary General Meeting held on 17th April, 2021 to enable the Company to shift

Place: New Delhi Date: 2nd August, 2021

its Registered Office from NCT of Delhi to State of Uttar Pradesh.

TRANSFER OF EQUITY SHARES TO INVESTOR EDUCATION & PROTECTION FUND

It may also be noted that as per present rules the shares transferred to IEPF, including

Place: New Delhi Yogesh Mendiratta Date: 02.08.2021

For any clarification on the matter, members may kindly contact the Company's Registrar e-mail: admin@ mcsregistrars.com. For Orient Bell Limited

Date: 02.08.2021 Place: New Delhi

contained in the Notice of EGM.

is already registered with CDSL for e-voting then existing user id and password can be If you have any queries or issues regarding attending EGM & e-Voting from the e-Voting System, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to

Delhi-110095 उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स संघ लिमिटेड Dated: 03-08-2021, Place: Ghaziabad -ए. राणा प्रताप मार्गे, लखनऊ-226001 Tel No. (0522) 2628310, 2283121

On line e-tenders are invited from Manufacturers (as per details given in tender documents) for Rotatary screen to various Cooperative Sugar Factories of U.P. . The e-tender documents with detailed specifications, terms and conditions

GENOMIC VALLEY BIOTECH LIMITED Regd. Off: 4 K.M. Stone, BerriChharra Road, Village- Kherka Musalman, P.O. Tandaheri Tehsil-Bahadurgarh, District-Jhajjar, Haryana-124507

2021 in view of COVID-19 pandemic .

form as transfer of shares in physical form has been prohibited by the SEBI.

For further details, please contact Shri Bhawendra Jha (011-29961281-283). For Genomic Valley Biotech Limited

Tel & Fax: 0141-2235760/761, E-mail: rammingmass@gmail.com, Website: www.rammingmass.com NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT:-Notice is hereby given that:-

end on Tuesday, 24th August, 2021 at 5:00 P.M. The remote e-voting shall not be

c. Members who have not cast their vote through remote e-voting and are present in the EGM through VC/OAVM, shall be eligible to vote through e-voting at the EGM. d. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on 18th August, 2021 i.e. cut-off only shall be liable to avail the facility of remote e-voting or e-voting at the EGM. The detailed procedure/ instructions for remote e-voting or e-voting at the EGM are

helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Mr. Nitin Kunder (022-23058738) or Mr.

Place: Jaipur Date: 3rd August, 2021

For the Indian Intelligent.

Place: Delhi

the Company at its current registered office.

NOTICE FOR SHIFTING OF OFFICE TO

Notice be and is hereby given pursuant

Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEB (Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations, 2015 that the meeting of the Board of Directors of M/s Ekam Leasing and Finance Co Limited will be held on Thursday,12th day of August, 4:00 P.M. at the Registered Office of the Company, inter alia, to consider and approv unaudited Financial Results of the Company for the guarter ended on 30th June, 2021 and any other matter with the permission of the Chair and with the

consent of majority of directors present in the This intimation is also available on the website BSE Limited (www.bseindia.com) where the company's shares are listed and on the website of

the Company viz www.ekamleasing.com. By order of the Board

EKAM LEASING AND FINANCE CO. LIMITED (Rekesh Jain

Chairman Cun

DIN- 0006173

Managing Directo

months ended on June 30, 2021.

Three Thousand Eight Hundred Sixty seven Only) as on 08.11.2020 along with

Description of the Immovable Properties

Form No. INC-25A

rules and is desirous of converting into a private limited company in terms of the special resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on 30th June, 2021 to enable the company to give effect for such conversion. Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change/status of the company may deliver or cause to be delivered or send by registered post of his objections supported by an affidavit stating the nature of his interest and grounds of opposition to the Regional Director at the address B-2 Wing, 2nd

DIN: New Delhi

S-233, School Block, Shakarpur, Delhi-110092 ...Applicant Company / Petitioner

110076" Stellar Accounting Services Private Limited

Advertisement to be published in the newspaper for change of registered office of the company from one state to another Region, New Delhi The Rules, interalia, provide for transfer of all shares in respect of which dividend has not

> the address mentioned below: Address: "F 247 Sarita Vihar, New Delhi

Outstanding Residential House No. 42B, Out of Khasra No 921MI situated at ₹ 10,74,514/-South - Plot No 49 Authorised Officer, HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED godown at CFP Rudrapur

E-Tender Notice No. 06 (I-4)/UCDF/2021-22 E-tenders are invited by the undersigned, from experienced, reputed and financially sound Firms/Manufacturers/civil contractors for the following tems so as to reach this office on or before 16.08.2021 up 5.00 PM. The tenders will be opened on 17.08.2021 at 11.00 AM.

Details Name of Work SIT&C of IMCU and Design, development, Tender fee, EMD, and customization, implementation, support & other related details maintenace of Dairy ERP Module. can be seen on Construction of Production Block at E-Tender portal Pithoragarh dairy & renovation of factory/

Tender documents may be downloaded/uploaded from E-tender Portal http://www.uktenders.gov.in Managing Director

कार्यालय अतिरिक्त मख्य अभियन्ता जन स्वा. अभि. विभाग क्षेत्र भरतपर दूरभाष नं. 05644-221500 क्रमांक:-ई-निविदा सुचना 126 से 128/21-22

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से पी.डब्ल्यू.एफ. एण्ड एआर- पार्ट-II अपेण्डिक्स 16, दिनांक 1.7.99 से लाग एवं समय समय पर आदिनाक तक वित्त विभाग द्वारा जारी संशोधित परिपत्रीं के अनरूप, जन स्वा. अभि, विभाग में उपयक्त श्रेणी में पंजीकत संवेदकों एवं अन्य संवेदकों जो कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, डाक एवं दुरसंचार, रेल्वे, अन्य राज्य/केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों/संगठनों में पंजीकत हो जो कि राजस्थान सरकार के एए/ए श्रेणी (यथा प्रयोज्य) के संवेदकों के समकक्ष हो या राजस्थान सरकार के अन्य विभागों में एए/ए श्रेणी पंजीकृत हो, जो निविदा प्रपत्रों में वांछित योग्यता रखते हों से ई-टेण्डरिंग के द्वारा निविदा संख्या 126-128/21-22 (कुल 3 कार्य) आमंत्रित की जाती हैं। निविदाओं की कुल अनुमानित लागत रु. 1187.24 लाख है। निविदा प्रपत्र वेब साईट http://sppp.rajasthan.gov.in तथा http://eproc.rajasthan.gov.in पर ऑनलाईन देखे जा सकते हैं। http://eproc.rajasthan.gov.in पर ऑनलाईन बिड डालने की अविध दिनांक 01.08.2021 को सायं 6.00 बजे से दिनांक 24.08.2021/06.09.2021 को सायं 6.00 बजे तक रहेगी। उपरोक्त निविदाएं दिनांक 25.08.2021/07.09.2021 को प्रातः 11.30 बजे, उक्त वेबसाईट पर कार्यालय में उपस्थित निविदादाताओं अथवा उनके अधिकत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी।

NIB code: PHE2122A2429 UBN No.: PHF2122WLOB05446 PHE2122WSOB05447

(आर.एस. गुप्ता) अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता जन स्वा. अभि. विभाग, क्षेत्र भरतपुर

MARUTI & SUZUKI मारूति सुजुकी इंडिया लिमिटेड

पंजी. कार्याः प्लॉट नं. 1, नेल्सन मंडेला रोड, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070 फोन: +91 (11) 46781000, फैक्स: +91 (11) 46150275 www.marutisuzuki.com, investor@maruti.co.in

CIN: L34103DL1981PLC011375

विडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित होने वाली 40वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम'). और ई-वोटिंग पर जानकारी की सूचना

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के साथ पवित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') द्वारा जारी मामलें पर सभी लागू परिपत्रों एवं भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड के अनुपालन में एजीएम की सुबना में निर्धारित किये जाने वाले व्यवसाय के निष्पादन के लिए कंपनी के सदस्यों की एजीएम मंगलवार, 24 अगस्त, 2021 को प्रातः 10.00 बजे वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी। सदस्यगण https://emeetings.klinlech.com पर वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होने के लिए

एजीएम की सचना और वार्षिक रिपोर्ट उन सभी सदस्यों को मेज दी गई है जिनके ई-मेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिमागियों के पास पंजीकृत हैं। उपरोक्त कथित दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.marutisuzuki.com और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट अर्थात www.bseindia.com एवं www.nseindia.com पर भी उपलब्ध हैं।

कंपनी अपने सदस्यों को एजीएम में पारित किये जाने वाले प्रस्तावित प्रस्तावों पर अपना मतदान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम ('दरस्थ ई-मतदान') के माध्यम से देने की सविधा प्रदान कर रही है। कंपनी ने दूरस्थ ई-मतदान सुविधा प्रदान करने के लिए अधिकृत एजेंसी के रूप में केफिन टेक्नोलॉजीज प्रा. लि. (कॅफिन) की सेवाएं ली हैं। सदस्यों से अनुरोध है कि वे ई-वोटिंग के तरीके और रिमोट ई-वोटिंग (वोट डालने के लिए) के निर्देशों का पालन करें, जिसका विवरण एजीएम की सूचना में दिया गया है।

एजीएम में भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग की लिए सुविधा (इंस्टा पोल) उपलब्ध होगी और केवल वे सदस्य जो एजीएम में उपस्थित हैं और जिन्होंने दरस्थ ई-मतदान के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना मतदान नहीं दिया है और जिन्हें वोट देने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है, केवल वे ही अपना एजीएम के दौरान मतदान देने के लिए पात्र होंगे।

दूरस्थ ई-मतदान के संबंध में यूजर आईडी एवं पासवर्ड सहित विस्तृत जानकारी एवं निर्देश

सदस्यों को ई-मेल के माध्यम से मेज दिये गये हैं। इन लॉगइन विवरणों को वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होने के लिए उपयोग करना होगा। दूरस्थ ई—मतदान के विवरण इस प्रकार हैं:

• दूरस्थ ई-मतदान आरंग होने की तिथि एवं समय: 20 अगस्त, 2021 (प्रात: 9.00 बजे) • दूरस्थ ई-मतदान समाप्त होने की तिथि एवं समय 23 अगस्त, 2021 (सायं 5.00 बजें) 23 अगस्त, 2021 (सार्य 5.00 बजे) के बाद दूरस्थ ई-मतदान की अनुमति नहीं दी जायेगी

जिन सदस्यों का नाम कट ऑफ विधि अर्थात 17 अगस्त, 2021 के सदस्यों / लाभ भोगी स्वामियों के रजिस्टर में शामिल होंगे, वे केवल दूरस्थ ई-मतदान या एजीएम में भागीदारी और इंस्टा पोल के माध्यम से मतदान करने की सुविधा का लाभ उठाने के लिये अधिकृत होंगे। जो व्यक्ति एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी के सदस्य बने हों तथा कट ऑफ तिथि को शेयर धारित करते हों, वे एजीएम की सूचना में उपलब्ध विस्तृत प्रक्रिया जो कंपनी की वेबसाइट तथा केफिन की वेबसाईट पर उपलब्ध है का अनुसरण कर यूजर आईडी तथा पासवर्ड

जिन सदस्यों ने ई-मतदान द्वारा अपना मतदान किया हो, वे एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं लेकिन उन्हें फिर से मतदान की अनुमति नहीं दी जायेगी।

10. दूरस्थ ई–मतदान व लाइव वेबकास्ट से संबंधित किसी भी पृष्ठताष्ठ/शिकायतों के लिये सदस्य / लाभ भोगी स्वामी निम्न पते पर सम्पर्क करें

श्री राज कुमार काले, सहायक महाप्रबंधक, केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, टॉवर-बी, प्लॉट 31—32, सेलेनियम बिल्डिंग, फाइनेंशियल डिस्टिक्ट, नानकरामगृडा, गोचीबावली, हैदराबाद—500032, फोन नं. 040- 67162222 या टोल फ्री नं. 1-800-30-94-001; ई—मेलः evoting@kfintech.com या केंफिन की वेबसाइट https://evoting.kfintech.com/public/Faq.aspx पर उपलब्ध एफएक्यू सैक्शन को देखें। सदस्यगण ई-मेलः investor@maruti.co.in पर कंपनी सचिव

मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के लिये

नई दिल्ली

संजीव ग्रोबर

03 अगस्त, 2021 उप-अध्यक्ष एवं कंपनी सचिव

रॉनसन ट्रेडर्स लिमिटेड CIN: L51909WB1982PLC035358

पंजीकृत कार्यालयः 9/1, आर.एन. मुखर्जी रोड, 5वीं मंजिल, कोलकाता- 700 001

दुरभाषः 2242 9956, 2248 7068, फैक्सः 2248 6369, ई-मेलः ronsontraders@birlasugar.org, वेबसाइटः www.ronsontraders.com

रॉनसन ट्रेडर्स लिमिटेड का डीलिस्टिंग ऑफर

रॉनसन ट्रेडर्स लिमिटेड ('कंपनी') के निजी शेयरधारकों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2021 ("डीलिस्टिंग विनियम, 2021") और भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड के आदेश धारक संदर्भ नंबर 'डब्ल्यूटीएम/जीएम/सीएफडी/12/2020–21' दिनांक 19 जून, 2020 ("डीलिस्टिंग ऑर्डर") और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड शुद्धिपत्र आदेश धारक संदर्भ संख्या 'डब्ल्यटीएम/जीएम/सीएफडी/12ए/2020-21' दिनांक 29 जन, 2020 के प्रावधानों के अनुसार दीपशिखा ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ("प्रमोटर एक्वायरर") ने दिनांक 04 नवंबर, 2020 के पत्र के माध्यम से 20,820 (बीस हजार आठ सौ बीस) भुगतान इक्विटी शेयर जिसका अंकित मूल्य रु 10.00/- (केवल दस रुपये) ("इक्विटी शेयर") है, जो कंपनी के निजी शेयरधारकों से कंपनी के इक्विटी शेयरों की कुल इक्विटी और वोटिंग शेयर पुंजी के 3.63% के अनुरूप है जैसा कि डीलिस्टिंग विनियम ("निजी शेयरधारक") के तहत परिभाषित किया गया है, का अधिग्रहण करने और उसके बाद कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, जहां वर्तमान

इस संबंध में, प्रमोटर एक्वायरर ने गुरुवार, 29 जुलाई, 2021 को निजी शेयरधारकों को एक प्रस्ताव पत्र जारी किया है. और कंपनी के सभी निजी शेयरधारकों को सोमवार. 02 अगस्त. 2021 को उक्त प्रस्ताव पत्र का प्रेषण कंपनी ने पूरा कर लिया है। डीलिस्टिंग विनियम, 2021 के विनियम 35(2)(डी) के प्रावधानों के अनुपालन

मिं कंपनी के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, से सूचीबद्ध 5,73,000 (पांच लाख तिहत्तर हजार) इक्विटी शेयरों को

हटाने का इरादा व्यक्त किया था है।

(ए) अपने इक्विटी शेयरों को फ्लोर प्राइस पर या आपके द्वारा निर्धारित सांकेतिक मुल्य पर निविदा दें, जिसे निजी शेयरधारक द्वारा विधिवत भरे और हस्ताक्षरित स्वीकृति सह पावती के रूप में दशार्या जाएगा, जिसे अनुलग्नक ए' के रूप में संलग्न किया जाएगा। प्रमोटर एक्वायरर को संबंधित दस्तावेजों के साथ प्रस्ताव पत्र प्रस्तुत किया जाएगा; या

ंबी) कंपनी के निजी शेयरधारक बने रहें, डीलिस्टिंग ऑफर के लिए अपनी सकारात्मक सहमति देकर कंपनी के निजी शेयरधारक बने रहें, यह निर्दिष्ट करते हुए कि आप कंपनी के शेयरधारक होने में रुचि रखते हैं और अगर कंपनी के इक्विटी शेयर हैं तो कोई आपत्ति नहीं है कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड से असूचीबद्ध किया गया जिसके लिए प्रस्ताव पत्र के साथ 'अनुलग्नक बी' के रूप में सहमित फॉर्म की एक प्रति संलग्न है:

(सी) यदि आप उक्त डीलिस्टिंग ऑफर में भाग लेने में विफल रहते हैं, तो यह माना जाएगा कि आप कंपनी के पोस्ट-डिलिस्टिंग ऑफर के सार्वजनिक शेयरधारक होने के लिए सहमत हैं, और निकट भविष्य में इस पर आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं होगा;

सिबी के आदेश के अनुसरण में, कैपिटल स्क्वायर एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड ("मर्चेंट बैंकर") ने 20 अप्रैल, 2021 के मूल्यांकन प्रमाण पत्र के माध्यम से, कंपनी के इक्विटी शेयरों के उचित मुल्य को डीलिस्टिंग विनियमों के संदर्भ में, विचार करने के बाद निर्धारित किया था जिसकी दो स्वतंत्र समकक्षों द्वारा प्रदान की गई मूल्यांकन

रिपोर्ट चार्टर्ड एकाउंटेंट की समीक्षा की गई, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

सीए अनुज कुमार, मेसर्स जैन एंड सिंह एंड कंपनी के पार्टनर, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, सदस्यता संख्या '059492' और फर्म पंजीकरण संख्या '307135ई' वाले जिसका कार्यालय पी- 41, प्रिंसेप स्ट्रीट, 5वीं मंजिल, कमरा नंबर 503, कोलकाता 700 072, पश्चिम बंगाल, भारत में स्थित है, के साथ संपर्क नंबर '022-256 484, 8835809', दिनांक 19 अक्टबर, 2020 के प्रमाण पत्र में कहा गया है कि रॉनसन ट्रेडर्स लिमिटेड के इक्विटी शेयरों की स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए उचित मुल्य 1,242.76/- प्रति इक्विटी शेयर (रुपये एक हजार दो सौ बयालीस रुपये और छिहत्तर पैसे) है।

सीए कृति अग्रवाल, मेसर्स पीडी रैंडर एंड कंपनी की पार्टनर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, सदस्यता संख्या '302753' और फर्म पंजीकरण संख्या '319295ई' जिसका कार्यालय 13, गणेश चंद्र एवेन्य, दूसरी मंजिल, सुइट नंबर 12, कोलकाता- 700 013, पश्चिम बंगाल, भारत में स्थित है के साथ संपर्क नंबर '+022-236 6913/0651', और ईमेल पता 'pdrandar@hotmail.com' होने के साथ, 25 सितंबर, 2020 के प्रमाण पत्र के माध्यम से कहा गया है कि रॉनसन ट्रेडर्स लिमिटेड के इक्विटी शेयरों स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए उचित मूल्य 864.82/- रुपये (केवल आठ सौ चौसठ रुपये और बियासी पैसे) प्रति इक्विटी शेयर है;

विभिन्न मापदंडों पर विचार करने और डीलिस्टिंग ऑर्डर के अनुसार, प्रमोटर एक्वायरर और मर्चेंट बैंकर ने इक्विटी शेयरों का मुल्य 1,242.76/- (केवल एक हजार दो सौ बयालीस रुपये और छिहत्तर पैसे) प्रति इक्विटी शेयर निकास मूल्य ("फ्लोर प्राइस") के रूप में निर्धारित किया है। आपसे अनुरोध है कि सांकेतिक मल्य या सहमति फॉर्म को दर्शाते हुए स्वीकृति सह पावती के रूप में अपनी सहमति भेजने के लिए संबंधित दस्तावेज को बुधवार, 11 अगस्त, 2021 सायं 5:00 बजे (भारतीय मानक समय) तक पंजीकृत कार्यालय 9/1, आर. एन. मुखर्जी रोड, 5वीं मंजिल, कोलकाता- 700001, पश्चिम बंगाल, भारत में जमा करें।

> बोर्ड के आदेशानसार कृते रॉनसन टेडर्स लिमिटेड अशोक कुमार डागा

JMIC-1, Phagwara M/s Sampooma Feeds (Proprietorship Concern), Opp Mauli Gate, G.T. Road, Phagwara Distt. Kapurthala Through Proprietor Asish Gupta S/o Sh. Yogesh Chander Gupta R/o 200 Hargobind Nagar, Phagwara, Distt Kapurthala Its Attorney Sh Charan Dass S/o Sh Gurmit Ram R/o Nathewal P.O. Sarhauli, Tehsil Phillaur,

M/s RAGHOJI House Of Distribution Through Proprietor Sh Akash Kumar Sonu S/o Sh Kaushlendra Singh R/o H.no 07, Road 1, Raipur Nagar, P.O Haiipur, P.S. Industrial Area Vaishali Bihar

Publication Issued To: M/s Ragholi House Of Distribution Through Proprietor Sh Akash Kumar Sonu S/o Sh Kauhlendra Singh R/o H. No. 07, Road 1, Rajpur Nagar, P.O Hajipur, P.S Industrial Area

served. It is ordered that accused should appear in person or through counsel on 10-09-2021 at 10.00 a.m. for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&di

strict=Kapurthala JMIC Phagwara Regulation 29(1)(a) read with 47(1) of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('the

NOTICE

LODR Regulations'), a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, August 13, 2021 interalia to consider, approve and take on record Unaudited Consolidated and Standalone Financial Results of the Company for the 1st Quarter ended on June 30, 2021 as per as per the Regulation 33 of LODR

Regulations. This Information is also available on the Website of the Company and the Stock Exchange i.e www.bseindia.com.

> For Jaykay Enterprises Ltd. (Prabhat Kumar Mishra)

CFO & Company Secretary Place: Kanpur Date : August 02, 2021

सार्वजनिक 🕸 कनाटका बक्रालामटड सम्पूर्ण भारत में, आपका पारिवारिक बैंक नीलामी मख्य कार्यालय: मंगलरु-575 002 CIN : L85110KA1924PLC001128

ेशाखा भिवाड़ी : ए-७, भूतल, भगत सिंह कॉलोनी, सामने आशियाना बगीचा, भिवाडी-301019. जिला : अलवर. राजस्थान सूचना दूरभाष : 01493-230013, ई-मेल : bhiwadi@ktkbank.com

हमारे बैंक के कब्जे में निम्नलिखित वाहन की बिक्री सार्वजनिक नीलामी में 10.08.2021 को 11.00 बजे पर्वा. को प्लॉट सं. ए-७, भगत सिंह कॉलोनी, सामने आशियाना बगीचा, अलवर बाईपास रोड. भिवाडी, जिला अलवर, राजस्थान-301019 पर की जायेगी जो बैंक के बकाया राशि की वसली के लिए निम्नलिखित नियम एवं शर्तों के अध्यधीन होगी।

सम्पत्ति का विवरण : हंडई मॉडल I20 स्पोर्ट्ज + वीटीवीटी (पेट्रोल) पंजीकरण सं. HR36AG0452 आरक्षित मृल्य (अपसेट मृल्य) : रु. 5,30,000.00

नियम एवं शर्तें

इच्छुक संविदाकार वाहन का निरीक्षण पूर्व अनुमित लेकर किसी भी कार्यदिवस पर कार्यालयी घण्टों के दौरान पहलवान पार्किंग यार्ड, एनएच-48, घाटल महानियावास, धारूहेडा, हरियाणा-123106 पर कर सकते हैं।

आरक्षित मुल्य की वसली के अध्यधीन, वाहन की बिक्री ''जहाँ है जैसे है'' दशा में उच्चतम संविदा राशि हेत की जायेगी।

सफल संविदाकार को तुरन्त सम्पूर्ण संविदा राशि का भूगतान करना होगा तथा वाहन की डिलीवरी

बैंक बिना कोई कारण बताये नीलामी के निरस्त या स्थिगित करना अथवा उच्चतम संविदा को स्वीकार न करने का अधिकार है।

इन नियम शर्तों में जो समस्त मामले कवर नहीं हैं, बैंक का निर्णय सभी सम्बन्धितों पर अन्तिम और बाध्यकारी होगा।

स्थान : भिवाडी कृते कर्नाटक बैंक लिमिटेड तिथि : 30.07.2021

फेडरल बैंक आपका सर्वोत्तम बैंकिंग साझेदार प्लॉट नं. 12, सेक्टर 12ए, द्वारका, नई दिल्ली-110078 पंजी. कार्यालय: अलवाये, केरल स्वर्ण की निजी बिक्री की सचना

सभी सम्बन्धितों को एतद्वारा सुचना दी जाती है कि बैंक की निम्नलिखित शाखाओं के तहत निम्नलिखित स्वर्ण ऋण खातों में बंधक स्वर्ण आभूषण, जो विमोचित करने के लिए अतिशोध्य हैं और बार-बार सूचनाओं के बावजूद अब तक नियमित नहीं किये हैं, निम्नानुसार 09.08.2021 को या इसके पश्चात शाखा में बिक्री हेतु रखे जायेंगे :

खाता नाम	खाता संख्या	खाता नाम	खाता संख्या
रुद्राणी जानकी	15456200007208	शोभा कुमार	1545610003125
अजय मित्तल	15456200007000	ंमंगल सिंह	1545610003159
अजय मित्तल	15456200007018	देवेन्दर नाथ वी	1545610003158
अजय मित्तल	15456200007026	सूरज प्रसाद	1545610003156
बेनी जेम्स	15456100025888	भावना चटर्जी	1545610003163
बेनी जेम्स	15456100026035	मुकेश कुमार ओझा	1545610003165
बंटी	15456100031043	उषा रानी	1545610003172
पंकज डंगवाल	15456100031001	बोनी शर्मा	1545610003170
अनन्त कुमार	15456100031159	राज कुमार	1545610003174
चैताली सुद	15456100031134	सूरज प्रसाद	1545610003175
राजेश कुमार वर्मा	15456100031217	अवन्तिका शर्मा	1545610003182
राजेश कुमार वर्मा	15456100031209	संदीप त्यागी	1545610003187
राजेश कुमार वर्मा	15456100031191	भानू ढींगरा	1545610003192
राजेश कुमार वर्मा	15456100031183	करमबीर सिंह	1545610003190

जिन्दल फिटिगंस लिमिटेर (स्री आई एव : U27100DL2011PLC219075)

पंजीकृत कार्यालय : 28 नजफगड़ रोड, शिवाजी मार्ग, नई दिल्ली – 110015 दूरभाष : +91 (11) 45021983-984; फेक्स नं. +91 (11) 45021982 वेबसाईट : www.jindalfittings.com क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र नई दिल्ली के समक्ष

कंपनी अभिनियम, 2013 की भारा 13 को उपभारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (6) के खुण्ड (क) के मामले में

जिन्दल फिटिगंस लिमिटेड जिसका संजीकृत कार्यालय 28 नजफगड़ रोड़, शिवाजी मार्ग, नई दिल्ली – 110015 में स्थित है के मामले में

आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि कंपनी केन्द्रीय सरकार क्षेत्रीय निदेशक (उत्तरी क्षेत्र), कारपोरेट कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अनुसरण में पंजीकृत कार्यालय को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से उत्तर प्रदेश राज्य में स्थानान्तरित करने के लिए इसके मेमोरन्डम आफ एसोसिऐशन के अनुच्छेद— 🛘 में बदलीकरण जो कि कंपनी की असाधारण आम सभा दिनांक 17 अप्रैल, 2021 ों विशेष प्रस्ताव द्वारा पारित किया गया है कि अनुमोदन हेत क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानान्तरण में यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित है तो वह व्यक्ति या तो निदेशक शिकायत प्रारुप एमसीए — 21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में फाईल कर शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमे उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के इस सुचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय बी-2 विंग, दूसरा तल, पं. दीनदयाल अन्तमोदय भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, नई दिल्ली -110003 पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या सुपुर्द कर सकता है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उसके उपरोक्त पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी भेंजेगा।

कृते जिन्दल फिटिंगस लिमिटेड (विवेक चौधरी) कंपनी सक्रेटरी

एसीएमः 29335

स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 2 अगस्त, 2021

प्रकाशन नोटिस ओ०ए० संख्या 292/2020 ऋण वसुली एवं दिवालियापन अधिनियम, 1993 के सेक्शन 19 के सब-सेक्शन (4) संपठित उप नियम (2ए) के नियम 5 समय-समय पर संशोधित ऋण वसूली ट्रिब्यूनल (प्रोसीजर) नियम 1983 के अधीन उपस्थित होने

की सूचना दिनांकः 02.08.2021 डायरी संख्या 400 बैंक ऑफ इंडिया बनाम डॉo राकेश भारती

डॉ० राकेश भारती पुत्र श्री गुरूदास, मकान नं० 7, एसआर एकोमोडेशन,

एसजीआरआरआईएमएचएस (इंद्रेश हॉस्पिटल) कैंपस, पटेल नगर, देहरादून- 248001 जहाँ कि उपरोक्त वर्णित आवेदक बैंक ने आपके विरुद्ध 🖲 99,88,338,50 /- की वसली हेत् **ओ०ए० सं० २९२ / २०२०** संस्थित किया है, जिसमें कि माननीय न्यायाधिकरण ने ऋण वसूली एवं दिवालियापन अधिनियम, 1993 की धारा 19(4) के सम्मन / नोटिस जारी किया था जो कि माननीय

पीठासीन अधिकारी के समक्ष 30.07.2021 को सूचीबद्ध किया गया था। यह कि, माननीय ट्रिब्युनल इस बात से सन्तुष्ट है कि सामान्य तरीके से मांग नोटिस जारी किया जाना संभव नहीं है, इसलिए इस प्रकाशन के जरिये दी जा रही सूचना के द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि आप दि0 09.09.2021 को अथवा इससे पूर्व आप स्वयं व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिकृत एजेण्ट या लीगल प्रैक्टिशनर के माध्यम से माननीय ट्रिब्यूनल में उपस्थित हों। इसके अलावा, आपको यह दिखाने की आवश्यकता है कि ओ०ए० में दी गई राहत की अनुमति क्यों नहीं दी जानी चाहिए और सेट में पेपर बुक फॉर्म में अपने बचाव में और यदि कोई हो, तो सभी दस्तावेजों और शपथ पत्रों के तहत अपने बचाँव में दायर करें। व्यक्तिगत रूप से या इस नोटिस के प्रकाशन की

तारीख से 30 दिनों के भीतर, इस ट्रिब्यूनल में व्यक्तिगत रूप से या आपके विधिवत अधिकृत एजेंट या कानूनी व्यवसायी के माध्यम से सेट अप, काउंटर क्लेम के लिए आपका बचाव या दावा प्रस्तुत करें । सुचित हों कि निर्धारित दिवस एवं समय पर ट्रिब्यूनल में आपकी उपस्थिति की चुक की दशा में इस प्रकेरण पर सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपरिधर्ति में किया जायेगा। दिनांक 2 अगस्त, 2021 के दिन अधिकरण की मूहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी।

द्विब्युनल के आदेशानुसार

रजिस्ट्रार, ऋण वसूली ट्रिब्युनल, देहरादून

दिल्ली जल बोर्ड : रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

40 एमजीडी डब्ल्यू.टी.पी., नांगलोई, नई दिल्ली ''कोरोना रोकें; मास्क पहनें, शारीरिक दूरी का पालन करें, हाथ साफ रखें'' रुचि की अभिव्यक्ति

ओजोनाइजेशन/फिल्ट्रेशन/एयरेशन प्रणाली सहित अशोधित जल/यूजीआर जल के साथ मिश्रित करने हेतु उपयुक्त 20 एमजीडी जल शोधन संयन्त्र/ओजोनाइजेशन संयन्त्र के डिजाइन, निर्माण, संस्थापन, परीक्षण तथा कमिशनिंग का कार्य क्रियान्वित करना चाहता है : 1. रंग - साफ, पीएच मान - 7.7, टर्बिडिटी - 2.9 (एनटीयू), कुल निलम्बित ठोस - 08 (मिग्रा/ली), अमोनिया - 4.0 (मिग्रा/ली), विलेय अमोनिया-

नाइट्रोजन - 3.0 (मिग्रा/ली), पर्टीकुलेट अमोनिया-नाइट्रोजन- 01(मिग्रा/ली), PO ¾-पी- 1.2(मिग्रा/ली), विलेय PO ¾-पी- 1.0(मिग्रा/ली), पर्टीकुलेट PO¾- पी- 0.2 (मिग्रा/ली), विलेय बीओडी - 03 (मिग्रा/ली), पर्टिकुलेट बीओडी - 03(मिग्रा/ली), सीओडी- 53(मिग्रा/ली), विलेय सीओडी – 60 (मिग्रा/ली), पर्टिकुलेट सीओडी – 04 (मिग्रा/ली), कठोरता- 296(मिग्रा/ली), टीडीएस- 955(मिग्रा/ली), फीकल कोलीफॉर्म 21×10⁴ (एमपीएन) द्वारका जल शोधन संयन्त्र में 3 वर्षों सहित अशोधित जल/युजीआर के साथ मिश्रित करने हेतु उपयुक्त किया जाना है। 2. इस क्षेत्र की सभी एजेंसियों/विशेषज्ञों से निवेदन है कि वे दस दिनों (अर्थात 11.08.2021 को 3.00 बजे अप. तक) के भीतर सरकारी/अर्धसरकारी दोनों विभाग के लिए प्रयोज्य संभावित व्यय सहित सम्पूर्ण विशिष्टि, अपनाई जाने वाली तकनीक, स्पष्ट नियम एवं शर्तों, भूमि/वांछित क्षेत्रफल आदि

सहित अपने प्रस्ताव जमा कर दें। इच्छुक फर्म स्पष्टीकरण/सूचना, कोई हो, के लिए श्री के.जी. मिश्रा, अधिशासी अभियन्ता, मोबाइल : 9650291163/ श्री योगेश लोचब, एई(ईएण्डएम), मोबाइल : 9650777672 ई-मेल : eewtpnangloi@gmail.com से सम्पर्क करें। पी.आर.ओ. (जल) द्वारा जारी विज्ञापन सं. जे.एस.वी. 240 (2021-22)

अधिशासी अभियन्ता (ईएण्डएम) डब्ल्यूटीपी-एन

जेनोमिक वैली बायोटेक लिमिटेड प्रद्यम्ना स्टील्स लिमिटिङ CIN: L27109DL1972PLC319974 पंजीकत कार्यालय : फ्लैट नं, 702, 7वां फ्लोर,

कंचनजंगा बिल्डिंग, 18-बाराखम्बा रोड,

नई दिल्ली-110001

फोनः 011-23310001-05,

सेल - hcsIndl@yahoo.co.in

वेबसाइट : www.psteelltd.com

सुचना

एतद द्वारा सुचित किया जाता है कि सेबी

(एलओडीआर) विनियम, 2015 के

विनियम 47 के अनुपालन में, विनियम

29 के साथ पठित, कम्पनी के निदेशक

मंडल की बैठक शुक्रवार 13 अगस्त

2021 को होगी. जिसमें 30 जून

2021 को समाप्त तिमाही हेतु कम्पनी के

अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार

स्थानः नई दिल्ली मुरारी लाल बिरमीवाल

प्रारूप संख्या आईएनसी-25क

क्षेत्रीय निदेशक. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

के समक्ष उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली,

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 14

और कंपनी (निगमन) नियम, 2014

के नियम 41 के मामले में

मैसर्स लहाडिया इम्पेक्स लिमिटेड

(CIN: U52110DL1989PLC038685)

जिसका पंजीकत कार्यालय: सी-2/54.

एस.डी.ए. हौज खास. नई दिल्ली–110016

में स्थित है, के मामले में

एतदद्वारा आम जनता को सुचित किया जाता है कि यह

कम्पनी उपरोक्त नियमावली के साथ पठित कम्पनी

अधिनियम, 2013 की धारा 14 के अंतर्गत केंद्र सरकार

के पास एक आवेदन करने के लिये इच्छक है तथा ऐसे

रूपांतरण को प्रभावी करने के लिये कम्पनी को सक्षम

बनाने के लिए 30 जून, 2021 को आयोजित

असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार

कंपनी को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में रूपांतरित

कंपनी के प्रस्तावित परिवर्तन / स्थिति के कारण यदि

किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होने की संभावना है तो

वह व्यक्ति, इसका कारण देते हुए आपत्ति हलफनामा में

उल्लेख करते हुए, जिसमें उनके हित / विपक्ष के आधार

हो, इस सूचना के छपने के 14 दिनों के भीतर क्षेत्रीय

निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2

विंग, दसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स

नई दिल्ली—110003 को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें

तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कम्पनी को उपरोक्त

पंजीकृत कार्यालय सी-2/54, एस.डी.ए. हीज

तिथि: 02,08,2021 निर्मल जैन (निदेशक)

विचार तथा अनुशंसा की जायेगी।

कते मैसर्स लहाडिया इम्पेक्स लिमिटेड

खास, नई दिल्ली—110016 में भी भेज दें।

करने के लिए इच्छक है।

स्थान: नई दिल्ली

Apollo

नई दिल्ली

02.08.2021

1. कॉर्पीरेट व्यक्ति का ना

निगमित/पंजीकृत है

आरंभन की तिथि

2. कॉर्पीरेट व्यक्ति के निगमन की तिथि

4. कॉर्पोरेट व्यक्ति की कार्पोरेट पहचान

3. प्राधिकरण जिसके अधीन कॉर्पीरेट व्यक्ति

संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या

5. कॉर्पोरेट व्यक्ति के पंजीकृत कार्यालय तथा

6. कॉर्पोरेट व्यक्ति के सम्बन्ध में परिसमापन

नम्बर तथा पंजीकरण संख्या

पर प्रस्तत करने के लिए कहा जाता है।

स्थान : नई दिल्ली

तिथि : 02.08.2021

प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता

परिसमापक का नाम, पता, ई-मेल पता, दूरभाष

ने 30.07.2021 को स्वैच्छिक परिसमापन प्रारम्भ कर दिया है।

दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तित दण्डनीय होगी।

व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक साधनों से जमा कर सकते हैं।

मंडल के आदेशानुसार

DIN: 00642510

कर मंजर किए जाएंगे।

दिनांकः 02.08.2021

टेली: +91-9811341542 ई-मेलः genomicvalley@gmail.com; हमसे http://www.genomicvalley.com पर मिलें

एतद्द्वारा सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन 2015 के विनियमन 29 तथा 47(1)(ए) वे प्रावधानों के अनुपालन में सचित किया जाता है कि जेनोमिक वैली बायोटेक लिमिटेड ("कम्पनी") निदेशक मंडल की बैठक मंगलवार, 10 अगस्त, 2021 क 11.45 पर्वा, में आयोजित होगी, जिसमें अन्य बातों व अलावे 30 जून, 2021 को समाप्त तिमाही तथा तीनमाह वे लिये कम्पनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथ अनुमोदन किए जाएंगे। सुचना कम्पनी की वेबसाईर www.genomic.valley.com तथा स्टॉक एक्सचैंज

की वेबसाईट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है जेनोमिक वैली बायोटेक लिमिटेड के लिये

तिथि: 02.08.2021

Criminal Courts, Ludhiana In The Court Of Ms. Shweta Dass JMIC Ludhiana

Peshi: 17-09-2021 sublication notice for proclamation under section 82 CR.PC Complaint R/w sec-138 of N.I ACT

Versus Ajay Bhatia Notice To: Ajay Bhatia Prop Of M/s Gurdeep Enterprises 127/120, S- Block Juhi Gaushala, Crossing Saket Nagar,

Kanpur U.P whereas it has been proved to the satisfaction of the court that you, the accused above named cannot be served in the ordinary way of service. tence, this proclamation under section 82 CRPC is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before the court on 17-09-2021 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in default of your part to appear as directed above, the above said case will be heard and determined as per law, in your absence, give under my hand and the seal of the court, for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=

किम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में)

केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए के मामले में

सिद्धार्थ पॉलीफोम प्राइवेट लिमिटेड (CIN: U17290DL2007PTC168956) जिसका पंजीकृत कार्यालयः एस-233, स्कूल ब्लॉक, शंकरपुर, दिल्ली-110092 में हैं, के मामले में

केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) के अधीन आवेदन का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली' से 'उत्तर प्रदेश राज्य' मे स्थानांतरित करने के लिए 27 जून 2021 क आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पृष्टि की मांग की गई है। कंपनी के पंजीकत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है त वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए—21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र

जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सुचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह (14) दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली-110003 पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति आयेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते पर भी भेजें। एस-233, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर,

दिल्ली-110092 आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से सिद्धार्थ पॉलीफोम प्राइवेट लिमिटेड

सिद्धार्थ अग्रवाल दिनांक : 02.08.2021 स्थान : दिल्ली ढीआईएन: 08988510

ओ. पी. चेन्स लिमिटेड CIN: L27205UP2001PLC026372 ८/१६, ए सेठ गली, आगरा, उत्तर प्रदेश - 282003 ई-मेल : opchains@rediffmail.com

वेबसाइट www.opchainsltd.com

सुचित किया जाता है कि कंपनी की 20वीं दिनांकित 30.07.2021 के अनुसार सामान्य अगस्त. २०२१ को सबह ११:०० बजे टेम्पटेशन, बी -87, सेंट्रल बैंक रोड, कमला नगर, आगरा उत्तर प्रदेश-282005 पर आयोजित की जाएगी यह नोटिस, प्रॉक्सी फॉर्म, अटेंडेस रिलप वित्तीय विवरण, और वार्षिक रिपोर्ट के साथ सभी विहित सदस्यों के पास इलेक्ट्रॉनिक रूप से उन सदस्यों के लिए जिनका-मेल पता 02.08.2021 को कंपनी पर पंजीकृत है, पर भेज दिया गया है। दस्तावेज नहीं मिले हैं, वे कंपनी की वेबसाइट से

उसी की प्रतिलिपि प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट यानी www.opchainsltd.com पर भी उपलब्ध हैं और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट यानी www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है। बुक क्लोजरः - आगे सूचित किया जाता है कि एजीएम के प्रयोजन के लिए कंपनी के शेयर घारकों और शेयर ट्रांसफर बुक्स शनिवार, 21 अगस्त, २०२१ से सोमवार, ३० अगस्त, २०२१ (दोनों दिन समावेशी) तक बंद रहेंगी।

स्थानः- आगरा

या रजिस्ट्रार के पास 17.08.2021 तक कोई दावा/आवेदन नहीं प्राप्त होता है तो कम्पनी कथित नियमों में वर्णित नियत प्रक्रिया का अनुपालन करके बिना कोई भावी सचना दिये शेष शेयरों को आईईपीएफ में अन्तरित करने के लिए बाध्य होगी दिल्ली जल बोर्ड, द्वारका वाटर वर्क्स निम्नलिखित टर्शियरी ट्रीटमेंट (फिजियोकेमिकल) वाले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के प्रदूषकों के उपचार हेत्

पर अपलोड कर दी है।

स्थान : नई दिल्ली

तिथि : 02.08.2021

कृपया ध्यान दें कि ऐसे शेयरों पर होने वाले समस्त भावी लाभ, लाभांश भी आईईपीएफ को अन्तरित किये जायेंगे। सभी शेयरधारकों से उपर्युक्त प्रावधानों पर ध्यान दें तथा समय-समय पर समस्त अप्रदत्त लाभांशों का

दावा करने का निवेदन है। यह भी ध्यान दिया जाये कि वर्तमान नियमों के अनुसार आईईपीएफ में अन्तरित शेयर और ऐसे शेयरों पर होने वाले समस्त लाभ, यदि कोई हो, का दावा कथित नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया का

अनुपालन करके आईईपीएफ प्राधिकरण से पुनः दावा किया जा सकता है। इस विषय पर किसी स्पष्टीकरण हेतु सदस्य कृपया कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा शेयर अन्तरण एजेंट मैसर्स एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लि., युनिट ओरिएन्ट बेल लि., एफ-65, प्रथम तल, ओखला इण्डस्ट्रियल एरिया, फेज-I, नई दिल्ली-110 020, दूरभाष : +91-11-41406149 ई-मेल : admin@mcsregistrars.com. पर सम्पर्क करें।

orientbel

योगेश मेंदीरता

कृते ओरिएन्ट बेल लिमिटेड

कम्पनी सचिव एवं हेड लीगल

CAPFIN INDIA LIMITED हिंदस्थान बिजनेस कारपोरेशन लिमिटिड CIN: L74999DL1992PLC048032 CIN: L65993DL1981PLC299385 Regd. Off: PP-1, Gali No.10, Industrial Area पंजीकत कार्यालयः फ्लैट नं. 702, Anand Parvat, New Delhi - 110005 Email: capfinindialtd@yahoo.co.in 7वां तल, कंचनजंगा बिल्डिंग, NOTICE

Gall No. 10. Industrial Area Anand Parvat.

New Delhi - 110005 to consider, approve

and take on record, inter-alia the guarterly

unaudited financial results of the Company

for the quarter and the year ended on June,

कोटिया एंटरप्राइजेज लिमिटेड

CIN: L74110DL1980PLC010678

पंजी. कार्या: 905, न्यू दिल्ली हाउस, 27,

बाराखंबा रोड, नई दिल्ली- 110001

फोल- 91-11-40045955

ईमेलः complianca@kotiaentarprises.com,

वेजसाइटः www.kotiaenterprises.com

बोर्ड बैठक की सूचना

सेबी (सुचीयन अनिवार्यताएँ एवं प्रकटीकरण

अपेकाएँ) विनियमावली, 2015, के विनियम 29 (1) (ए)

और 47(1) (ए) और 33 के अनसरण में, एतदद्वारा सचित

किया जाता है कि, मैसर्स कोटिया एंटरप्राइजेज सिमिटेड

के निदेशक मंडल की बैठक मंगलवार, 10 अगस्त, 2021

को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाएगी

जिसमें 30 जून, 2021 को समाप्त तिमाही के लिए

स्टॅंडबलोन अनंकेक्षित वितीय परिणामों पर विचार

A

अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स

(इंडिया) लिमिटेड

पंजी. कार्यालयः प्लॉट नं. ए-177, ओखला इंडस्ट्रियल

एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-110020

(CIN:L45101DL1979PLC009654)

वेबसाईटः www.acilnet.com,

ई-मेलः cs.corpoffice@acilnet.com

सुचित किया जाता है कि सेबी (एलओडीआर) विनियमन,

2015 के विनियिमन 29 के अनुपालन में कम्पनी के निदेशक

कार्यालय ए-177, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई

दिल्ली-110020 में वर्च्यअल/विडियो कान्फ्रेंसिंग द्वारा

आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के अलावे 30 जून,

एवीपी - कॉर्पोरेट मामले एवं विधि

केएसए रामपार्ट प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व का

5801, बस्ती हरफूल सिंह, सदर बाजार, नई दिल्ली

पंजीकरण सं. IBBI/IPA-001/IP- P01126/2018-

रीसर्जेंट रिजोल्यूशन प्रोफेशनल एलएलपी (आईपीई)

905, सेक्टर-50, गुरुग्राम, हरियाणा-122018,

मोबाइल नं. : +91 99113 08123

ई-मेल आईडी : ksa.vl@resurgentrp.com

यूनिटेक बिजिनेस जोन टॉवर सी, 9वीं मंजिल, यूनिट नं.

केएसए रामपार्ट प्राइवेट लिमिटेड के परिसमापक

सुधीर चंडी

एयरोस्टार फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड)

U74999DL1995PTC068822

110 006 भारत

एफसीए सधीर चण्डी

30.07.2021

29.08.2021

एतद्वारा सचना दी जाती है कि **केएसए रामपार्ट प्राइवेट लिमिटेड** (पूर्व का एयरोस्टार फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड)

केएसए रामपार्ट प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व का एयरोस्टार फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड) के हितधारकों से एतद्वारा अपने

दावों का प्रमाण 29.08.2021 को अथवा इससे पूर्व परिसमापक के समक्ष ऊपर प्रविष्टि 7 के समक्ष वर्णित पते

वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी हितधारक

ओरिएन्ट बेल लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 8, इण्डस्ट्रियल एरिया, सिकन्दराबाद-203205, (उ.प्र.)

कॉर्पोरेट कार्यालय : आइरिस हाउस, 16, बिजिनेस सेंटर, नांगल राया, नई दिल्ली-110046

सीआईएन :L14101UP1977PLCO21546, दूरभाष :+91-11-47119100

ई-मेल आईडी : investor@orientbell.com, वेबसाइट :www.orientbell.com

शेयरधारकों के लिए सूचना

विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि में इक्विटी शेयरों का अंतरण

यह सचना कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसचित विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण

निधि प्राधिकरण (लेखा, संपरीक्षा, अन्तरण और प्रतिदाय) नियमावली 2016 तथा यथासमय

संशोधित (''नियमावली'') के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में

ये नियम अन्य बातों के साथ-साथ उस परिप्रेक्ष्य में समस्त शेयरों के अन्तरण का प्रावधान करते हैं

जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में लगातार सात

तदनुसार, उन शेयरधारकों के पास उनके नवीनतम उपलब्ध पते पर व्यक्तिगत सूचना भेज दी गयी

है जिनके परिप्रेक्ष्य में वित्त वर्ष 2013-14 से लाभांश अप्रदत्त/अदावाकृत हैं और इस प्रकार कथित

नियमों के तहत आईईपीएफ में अन्तरित होने योग्य हैं। कम्पनी ने आईईपीएफ में अन्तरित होने के

लिए बकाये ऐसे शेयरधारकों तथा शेयरों का विवरण अपनी वेबसाइट www.orientbell.com

वर्षों तक शेयरधारकों को लाभांश नहीं प्रदान किया गया या दावा नहीं प्रस्तुत किया गया।

यदि कोई हो, पर विचार किये जाएंगे।

स्थानः नई दिल्ली

तिथि: 02.08.2021

ई-मेल : imcl@apollohospitals.com, येवपराष्ट्र : delhi.apollohospitals.com

विनियम 47 के अनुसार सूचित किया जाता है कि कम्पनी की निदेशक मंडल

की बैठक सोमवार 09 अगस्त 2021, को आयोजित की जायेगी जिसमें,

30 जून, 2021 को समाप्त तिमाही के अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर

उपर्यक्त जानकारी कंपनी की वेबसाइट https://delhi.apollohospitals.com

पर और स्टॉक एक्सचेंजों जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं की वेबसाइट

प्रपत्र क

सार्वजनिक घोषणा

[भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया)

विनियमावली, 2017 का विनियम 14]

केएसए रामपार्ट प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व का एयरोस्टार फाइनेंस

प्राइवेट लिमिटेड) के हितधारकों के ध्यानार्थ

www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है ।

कते कोटिया एंटराबहजेज सिमिटेस

इस्ता./-

आयुष जिंदल

कंपनी सचिव एवं

अनुपालन अधिकारी

2021 and other relevant matters.

Date: August 2, 2021

तथा अनुमोदन करना है।

स्थानः नई दिल्ली

RPG: 02.08.2021

। 8-बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001 Notice is hereby given that the meeting of फोन : +91-11-23310001/5, the Board of Directors of the Company has been scheduled to be held on Monday ईमेल - hcsIndl@yahoo.co.in August 9, 2021 at 12:30 p.m. at the registered office of the company at PP-1,

वेबसाइट : www.hbcorpltd.com.in. एतद् द्वारा सुचित किया जाता है कि सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015

के विनियम 47 के अनुपालन में, For Capfin India Limited विनियम 29 के साथ पठित, कम्पनी Rachita Mantry के निदेशक मंडल की बैठक शुक्रवार Whole Time Director Din: 03414391 13 अगस्त 2021 को होगी, जिसमें 30 जून 2021 को समाप्त तिमाही हेतु अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार कर मंजुर किए जाएंगे।

> मंडल के आदेशानुसार हस्ता/-नीरज जैन

निदेशक

DIN: 02726637

स्थानः नई दिल्ली दिनांक:02.08.2021

प्ररूप संख्या आईएनसी-26 कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम

30 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक. उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए)

के मामले में

गुंजन निकुंज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड

(CIN: U74899DL1992PTC048193) जिसका पंजीकृत कार्यालयः **मकान नंबर बी—31**. पहली मंजिल, ब्लॉक-बी, सैक्टर-23-ए, द्वारका, नई दिल्ली-110077 में हैं, के मामले में

....आवेदक कंपनी / याचिकाकर्ता एतदद्वारा सार्वजनिक सचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) के अधीन आवेदन का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का पंजीकत कार्यालय 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली' से 'हरियाणा राज्य' में स्थानांतरित करने के लिए 20 जुलाई 2021 को मंडल की एक बैठक मंगलवार, 10 अगस्त, 2021 को पंजी. आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम जापन में संशोधन

कंपनी के पंजीकत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण

की पृष्टि की मांग की गई है।

2021 को समाप्त तिमाही के लिये अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो (दोनों स्टैंडएलॉन एंव समेकित) तथा एजेण्डा के अन्य मदों. वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए—21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स (इंडिया) लि. के लिये शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र हस्ता/-जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का विपन कुमार तिवारी कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से बौदह (14) दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी–2 विंग, दसरा तल, इन्द्रप्रस्थ मेडिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड पर्यावरण भवन, सीजीओं कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली-पंजी. कार्यालय : सरिता विहार, दिल्ली-मधुरा रोड, नई दिल्ली 110076 (भारत) निगमित पहचान रांध्या. : L24232DL1988PLC030958 दुरभाष : 91-11-26925858, 26925801, फेक्स : 91-11-26823629 110003 पर पंजीकत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते पर भी भेजें। सेबी (लिस्टिंग दायित्व तथा प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 के मकान नंबर बी-31, पहली मंजिल, ब्लॉक-बी,

> सैक्टर—23—ए, द्वारका, नई दिल्ली—110077 आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से गुंजन निक्ंज एजुकेशनल इंस्टीटबुट प्राइबेट लिमिटेंड

> सोनिका चंद्रा (निदेशक) दिनांक: 02.08.2021 डीआई एन: 03012017 आईएनसी-26

किंपनी (निममन) नियम 2014 के नियम 30

के अनुसरण में]

कंपनी का पंजीकृत कार्यालय एक राज्य से

दूसरे राज्य में स्थानान्तरण करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु विज्ञापन केन्द्रीय सरकार के समझ उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-

स्टेलर अकार्चटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (CIN: U74120DL2009PTC196262) जिसका पंजीकृत कार्यालय एफ 247, सरिता विहार,

नई दिल्ली 110076 है के मामले में

घारा (4) और कंपनी (नियमन) नियम, 2014

के नियम 30 के उप-नियम (5) के खंड (ए)

एतदद्वारा सामान्य जनता को सचित किया जाता है कि कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को ''दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से पश्चिम बंगाल राज्य" में स्थानान्तरित करने के सक्षम बनाने हेत् कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अन्तर्गत शुक्रवार, 2 जुलाई, 2021 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुकूल, केंद्रीय सरकार के समक्ष कंपनी की संस्था बहि नियमावली में परिवर्तन करने की याधिका प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है। यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है तो वह निवेशक शिकायत फॉर्म काइल कर एमसीए-21 पॉर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या शपथ पत्र द्वारा समर्थित उसके हित की प्रकृति एवं विरोध का आधार बताते हुए, इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह (14) दिनों के अन्दर क्षेत्रीय निदेशक के पर्व बी-2 विंग, 2 फ्लोर, पं0 दीनदवाल अंत्योदव भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली 110003 को पंजीकृत डाक द्वारा सूचित करें, और एक प्रतिलिपि आवेदक कंपनी के निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पर भेजी जानी चाहिए: पताः "एफ 247, सरिता विहार, नई दिल्ली

110076" कृते और उनकी और से स्टेलर अकाउंटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड आशना लखोटिया

तिथि: 02.08.2021 निदेशक स्थानः नई दिल्ली DIN: 09183131

NUCLEUS न्यक्लियस सॉफ्टवेयर एक्स्पोर्ट्स लिमिटेड सीआईएन : L74899DL1989PLC034594 पंजी. कार्याः ३३-३५, त्यागराज नगर

मार्केट, नई दिल्ली-110003

फोन : +91 - 120 - 4031400 फैक्स : +91 - 120 - 4031672 ई-मेल : investorrelations@ nucleussoftware.com वेबसाइट : www.nucleussoftware.com स्चना

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण

अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 29 एवं उपर्युक्त के आलोक में ऐसे समस्त शेयरधारकों से वित्त वर्ष 2013-14 से आगे के लिए अप्रदत्त 47 के अनुपालन में एतद द्वारा सूचित किया लाभांश के दावे हेतु 17.08.2021 तक कम्पनी/इसके रजिस्ट्रार के पास आवेदन करने का निवेदन जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की किया जाता है ताकि उनके शेयर आईईपीएफ में अन्तरित न किये जायें। कृपया ध्यान दें कि यदि कम्पनी बैठक बृहस्पतिवार, 12 अगरत 2021 को निम्नलिखित पर विचार एवं अनुमोदन हेत् आयोजित होना निश्चित है:

क) 30 जून 2021 को समाप्त तिमाही हेत् कम्पनी के अंकेक्षित एकल वित्तीय परिणामों; ख) 30 जून 2021 को समाप्त तिमाही हेतु कम्पनी के अंकेक्षित समेकित वित्तीय परिणामों।

निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित वित्तीय परिणाम 12 अगस्त 2021 को मंडल की बैठक की समाप्ति के उपरान्त घोषित

इस सुचना में निहित जानकारी कम्पनी की वेबसाइट (http://www.nucleussoftware.com/ investors) एवं स्टॉक एक्सचेंजो की वेबसाइट (www.bseindia.com एवं www.nseindia.

किया जाएगा

com) पर भी मंडल की बैठक का विवरण उपत्यध हैं। कृते न्युविलयस सॉफ्टवेयर एक्स्पोर्टस

लिमिटेड इस्ता./-पूनम भरीन दिनांकः 2 अगस्त 2021

स्थानः नोएडा कम्पनी सचिव

www.readwhere.com

स्थानः कोलकाता डीआईएन- 03621528 दिनांक: 2 अगस्त, 2021

COURT NOTICE

In The Court Of Ravipal Singh

Distt Jalandhar

CNR NO: PBKPA1-000689-2016 Next date: 10-09-2021

Vaishali Bihar In above titled case, the accused could not be

Jaykay Enterprises Ltd. (CIN: L99999UP1961PLC001187)

पंजी. कार्या.: 4 कि.मी. स्टोन, बेरी छर्रा रोड, ग्राम खेरका मसलमान, पी.ओ. टंडाहेरी, तहसील बहादरगढ Reod. Office: Kamla Tower. जिला झज्जर, हरियाणा-124507, Kanpur - 208 001 (India) Ph. No. 91 512 2371478-81 Fax: 91 512 2332665

E-Mail-prabhat.mishra@jaykayenterprises.com; Website- www.jaykayenterprises.com

CIN: L01122HR1994PLC033029 Notice is hereby given pursuant to

> योगेश अग्रवात स्थानः नई दिल्ली

(प्रबंध निदेशक

CNR NO: PBLD03-022633-2019

M/s Nova Bicycle Industries

district notice&district=ludhiana JMIC Ludhiana

प्ररूप संख्या आईएनसी-26

....आवेदक कंपनी / याचिकाकर्ता एतदहारा सार्वजनिक सचना दी जाती है कि यह कंपनी

20 वी वार्षिक आम बैठक की सुचना वार्षिक आम बैठक (एजीएम), नोटिस व्यवसायों पर चर्चा करने के लिए सोमवार. 30 उन शेयरधारकों के लिए जिन्हें ये संबंधित

ओ.पी. चेन्स लिमिटेड के लिये दिनांक : 02.08.2021 अध्यक्ष/पूर्णकालिक निदेशक

अशोक कुमार गोयल